

August 14, 2021

The National Stock Exchange of India

"Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051

(Scrip Code - SHIVAMAUTO)

The BSE Limited

Phiroje Jeejeebhoy Towers Dalal Street Fort Mumbai – 400 001

(Scrip Code - 532776)

Sub: Intimation of publication of Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2021

Dear Sir,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021 published in the following newspapers:

- Business Standard (National daily newspaper in English) on August 14, 2021
- Business Standard (Regional daily newspaper in Hindi) on August 14, 2021

The Copy of results is enclosed herewith for your reference.

Thanking you

For Shiyam Autotech Limited

Samta Bajaj

Company Secretary and Compliance Officer

M. No. 50269

Tel: 0124-4698700 **Fax:** 0124-4698798

(Rs. in Crores)



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

Head Office: Central Bank of India Chandermukhi, Mumbai-400021 1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

PUBLIC NOTICE

For Debenture-holders of SHRI AMBICA MILLS LIMITED NOTICE is hereby given that we, Central Bank of India are acting as Debenture Trustees in terms of a Trust Deed dated 6th, October, 1983 executed with M/s Ambica Mills Limited ("the Company") for securing issue of 15 % Registered Mortgage Debentures of ` 100/- each of the aggregate nominal value of Rs. 3,00,00,000/- (Rupees Three Crore Only) issued by the Company The Company went into Liquidation in terms of an Order dated 17th February, 1997 passed by the Gujarat High Court and Liquidator took possession of its assets. The Liquidator of Gujarat High Court has after auctioning the assets of the Company, given to us a sum of Rs. 5,00,25,853.75/-(Rupees Five Crore Twenty Five Lakhs Eight Hundred Fifty Three and Seventy Five Paisa only) towards Debentures. We in terms of the said Declaration of Trust, after adjusting all costs, fees, charges including legal charges of Rs 5,70,252/-, are desirous of distributing the balance amount of Rs 4,94,55,601.75 /- to the holders of the aforesaid Debentures. Notice is hereby given that the holders of the aforesaid Debentures should attend our office at the address mentioned below between 11.00 a.m. and 5.00 p.m. on all working days from Monday to Friday alongwith the Original Debenture Certificate, Proof of Identity and Undertaking in specified format against which cheques will be issued after verification.

Central Bank of India Ground Floor MMO Building Fort, Mumbai-400 001

Maharashtra

for CENTRAL BANK OF INDIA

e-mail:dtcbi@centralbank.co.in

Sd/-**Authorized Signatory**



Centbank Financial Services Ltd ered Office: Central Bank of India-MMC Building, 3rd Floor (East Wing), 55, M. G, Road, Fort, Mumbai-400001, E-mail id: communication@cfsl.ir

Tel.: 022 2261 6217 ● Fax: 022 2261 6208 ● E-mail: dts@cfsl.in CIN: U67110MH1929GO1001484 ● Website: www.cfsl.in Website: www.cfsl.in **PUBLIC NOTICE** For Debenture-holders of SHRI AMBICA MILLS LIMITED

NOTICE is hereby given that we, Centbank Financial Services Ltd. (formerly: Centbank Financial & Custodial Services Ltd. Erstwhile: The Central Bank Executor & Trustee Co Ltd) are acting as Debenture Trustees in terms of a Trust Deed dated 24 September, 1966 executed with M/s Shri Ambica Mills Limited ("the Company") for securing issue of 7.75 % Registered Mortgage Debentures of Rs 100/- each of the aggregate nominal value of Rs. 1,00,00,000/-(Rupees One Crore Only) issued by the Company. By Second Supplemental Trust Deed dated 24 June, 1983, the rate on interest was increased to 12% The Liquidator of Gujarat High Court has after auctioning the assets of the Company, given to us a sum of Rs.1,64,33,487/-(Rupees One crore sixty four lakh thirty three thousand four hundred eighty seven only) towards Debentures. We, in terms of the said Declaration of Trust, after adjusting all costs, fees charges including legal charges of Rs 3,00,000/- are desirous of distributing the balance amount of Rs 1,61,33,487/- to the holders of the aforesaid Debentures.

Notice is hereby given that the holders of the aforesaid Debentures should attend our office at the address mentioned above between 11.00 a.m. and 5.00 p.m. on all working days from Monday to Friday alongwith the Original Debenture Certificate, Proof of Identity and Undertaking in specified format against which cheques will be issued after verification.

for CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

Managing Director

OFFICE OF LIQUIDATOR

M/s.TITANIUM TANTALUM PRODUCTS LIMITED (In Liquidation) At No.17B/7B, Maruthi Nagar, Hasthinapuram, Chenna Email Id: cavasu1967@gmail.com, Mob: 95661 44997

E-AUCTION SALE NOTICE Public Notice For E-auction Sale of movable properties of M/s. Titanium Tantalum Products Limited (in liquidation) by the Liquidator appointed by the National Company Law Tribunal (NCLT) Chennai in TCP/413/(IB)/CB/2017 on 12th June 2018. under The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and The Insolvency and

Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 Pursuant to the orders of the NCLT, Chennai, dated 12.06.2018, in TCP/413/(IB) CB/2017 appointing the undersigned as Liquidator, BIDS are invited from the interested parties by the undersigned for the purchase of **Electro Chlorinator**, **Raw Materials**, **Used Cars & Trade Marks** description of which are given in the Schedule as Lot-I, Lot-II, Lot-III & Lot IV belonging to M/s.Titanium Tantalum Products Limited (in liquidation) having its registered office at No.86/1, /engaivasal Main Road, Gowrivakkam, Chennai-600 073 on "As is where is" and "Whatever there is" and "No Compliant Basis" under The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016.

Date of inspection of the Electro Chlorinator, Raw Materials, Used Cars & Trade Marks by prospective bidders 21.08.2021 Between 11.00 am and 1.00 pm Last date & time for submission of online application for bid with EMD 27.08.2021 on or before 5.00 pm

DATE & TIME OF E-AUCTION: **01.09.2021**, Lot I: 11.00 a.m to 12.00 noon, Lot II: 12.00 noon to 1.00 p.m, Lot III: (a) 12.00 noon to 1.00 p.m, (b) 1.00 p.m to 2.00 p.m. Lot IV: 2.00 p.m to 4.00 p.m The end time of auction will be extended by 5 minutes each time a bid is made within last 5 minutes of e-auction

DESCRIPTION OF PROPERTIES

LOT-I: Semi-Finished Goods - Electro Chlorinator

erve Price: ₹ 4,90,000/-; EMD: ₹ 49,000/-; Bid Increment Amount: ₹ 10,000/ LOT-II: INVENTORIES: Raw Materials like metals like Titanium

Reserve Price: ₹ 30,00,000/-;	EMD: ₹ 3,00,000/-;	Bid Increment Amount: ₹ 25,000/-
	LOT III. VEIIIOL	FC

LOI-III. VERICLES							
	Vehicle Details	Reserve Price	EMD	Bid Increment Amount			
a)	Tata Indica Silver Grey (Vehicle No.TN-22-AM-3391), (Year of Model-January 2006)	₹ 35,000/-	₹ 3,500/-	₹ 500/-			
b)	Mahindra Scorpio Blueish Grey (Vehicle No.MH-43-R-5490), Year of Model – April 2007	₹ 1,65,000/-	₹ 16,000/-	₹ 1,000/-			
_	LOT IV. Do	talla of Tradom	o wlea				

	EOT-W. Dotails of fractional its					
S.No	Trademark No	Trademark Name	Class	Validity Date		
1	488024	TITAN	11	25/03/2028		
2	488035	TITAN	06	25/03/2028		
თ	1410975	CLEANILEC	07	03/01/2026		
4	1410976	CLEANILEC	11	03/01/2026		
5	1410977	KLOROGEN	07	03/01/2026		
6	1410978	KLOROGEN	11	03/01/2026		
7	1470890	TIODIZING	40	17/07/2026		
8	1470891	ATMA	40	17/07/2026		
თ	1470892	HYPOPAC	07	17/07/2026		
10	1470893	HYPOPAC	11	17/07/2026		
11	1470894	CLOROMARINE	07	17/07/2026		
12	1470895	CLOROMARINE	11	17/07/2016		
13	1470896	RITCHLOR	07	17/07/2026		
14	1470897	RITCHLOR	11	17/07/2026		
15	1470898	NOTOK	06	17/07/2026		
16	1470899	NOTOK	07	17/07/2026		
17	1794689	RT	07	12/03/2029		
18	1844956	RT SAFE BALLAST	11	29/07/2029		
19	1850855	RT	07	14/08/2029		
20	1850856	RT	11	14/08/2029		
21	1879713	RT ECO	11	03/11/2029		
22	1897399	RT HYPOFORTE	11	17/12/2029		

1897402 RT MARIN 1897403 RT AME 1943901 AME EDI eserve Price: ₹ 83,09,000/-; EMD: ₹ 8,30,900/-; Bid Increment Amount: ₹ 50,000/-EMD Remittance: Earnest money of 10% of the reserve price should be remitted hrough NEFT/RTGS/IMPS, Transfer in favour of "M/s.Titanium Tantalum Products" _imited - Liquidation" - Account No.000202000003108 with Indian Overseas Bank, No.12, Sardar Patel Road, Sriram Nagar, Adyar, Chennai-600 020. IFSC Code: OBA0000002. The remittance details should be clearly noted in the bid form. Cheques or demand draft shall not be accepted as EMD amount.

1897400 RT VACS

24 1897401 RT PURE

Note: The intending bidders have to submit the bid individually for each lot for whicl separate E-auction ID will be provided by the service provider.

or detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in https://ncltauction.auctiontiger.net of the service provider: M/s.E-Procurement

echnologies Ltd. Place: Chennai Date : 14.08.2021 Krishnasamy Vasudevan, Liquidate Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00155/2017-18/10324



Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

(₹ in lakhs, except per share data)

	Quarter	Year ended	
Particulars	30-Jun-2021 (Unaudited)	30-Jun-2020 (Unaudited)	31-Mar-2021 (Audited)
Total Income from Operations	18,406	16,517	70,258
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	3,651	3,651	15,061
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3,651	3,651	13,209
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	2,775	2,725	10,246
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,772	2,864	10,740
Equity Share Capital	3,233	3,233	3,233
Other Equity			60,525
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	0.86	0.84	3.17
(b) Diluted (in ₹)	0.86	0.84	3.17

Notes:

. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:						
	Quarter	Year ended				
Particulars	30-Jun-2021 (Unaudited)	30-Jun-2020 (Unaudited)	31-Mar-2021 (Audited)			
Total Income from Operations	18,223	16,470	69,693			
Profit/(Loss) before tax	3,411	3,565	11,963			
Profit/(Loss) after tax	2,534	2,639	8,873			
Total Comprehensive Income	2,498	2,776	9,375			

2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2021 are available on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.triveniturbines.com).

For TRIVENI TURBINE LIMITED

Place: Noida (U.P.) Date: August 13, 2021

Sd/-Dhruv M. Sawhney **Chairman & Managing Director**

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305 ite: www.triveniturbines.com, CIN: L29110UP1995PLC041834



Regd. Office: BPL Works, Palakkad 678 007, Kerala. CIN:L28997KL1963PLC002015 e-mail:investor@bpl.in, URL:www.bpllimited.com, Tel: No.+91 80 25589109

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the guarter ended 30th June, 2021

	(Quarter Endec	i	Year Ended
Particulars Particulars		31-03-2021 (Audited)	31-03-2020 (Unaudited)	31-03-2021 (Audited)
Total income from operations	6.09	15.05	8.08	44.84
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extra-ordinary items)	(1.23)	1.49	(1.23)	(0.55)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extra-ordinary items)	(1.23)	1.49	(1.23)	(0.55)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extra-ordinary items)	(1.23)	(18.99)	(1.23)	(21.03)
Equity Share Capital	48.89	48.89	48.89	48.89
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	99.86	120.89	99.86	120.89
Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic	(0.25)	(3.89)	(0.25)	(4.30)
Diluted	(0.25)	(3.89)	(0.25)	(4.30)

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and of the listed entity.

for BPL Limited

13th August, 2021

Ajit G Nambiar Chairman & Managing Director



SHIVAM AUTOTECH LIMITED

CIN: L34300HR2005PLC081531

Registered Office: 10, 1st Floor, Tower-A, Emaar Digital Greens, Sector-61, Golf Course Extension Road, Gurugram, Haryana-122102 Tel: 0124-4698700; Fax: 0124-4698798

Email id: info@shivamautotech.com; Website: www.shivamautotech.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

(Rs. In Lakhs)

			Quarter Ended			
SI. No.	Particulars	30-Jun-2021	31-Mar-2021	30-Jun-2020	31-Mar-2021	
		(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	
1.	Total income from operations (Net)	11,422.50	16,309.59	3,821.63	49,092.82	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,309.51)	611.16	(3,341.98)	(2,452.60)	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,309.51)	611.16	(3,341.98)	(2,452.60)	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,309.51)	(508.99)	(3,079.27)	(2,252.56)	
5.	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(1,294.92)	(443.84)	(3,088.65)	(2,214.59)	
6.	Equity Share Capital	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7.	Other Equity				9,302.14	
8.	Earning per Share (of Rs. 2/- each) for continuing and discontinued operation					
	Basic	(1.31)	(0.51)	(3.08)	(2.25)	
	Diluted	(1.31)	(0.51)	(3.08)	(2.25)	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock exchanges at and www.nseindia.com and www.bseindia.com and also at company's website www.shivamautotech.com. For and on behalf of Board of Directors of

> Shivam Autotech Limited Neeraj Munjal

Managing Director

Website: www.shivamautotech.com



SYNERGY

GREEN

Place : Gurugram Date: 13.08.2021

CIN: L27100PN2010PLC137493

392, E Ward, Shahupuri, Assembly Road, Kolhapur - 416001 Tel: (0231) 2658375

Email: nmm@synergygreenind.com

Website: www.synergygreenind.com

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

		(Rs. In	Lakhs except ea	arning per share	data)
			Quarter ended		Year ended
Sr. No.	Particulars	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	5,148.85	7,239.12	2,938.80	19,992.37
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	6.78	385.43	-23.60	524.84
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	6.78	385.43	-23.60	524.84
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	19.45	270.12	-17.77	317.59
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	16.50	273.29	-19.44	305.79
6	Equity Share Capital	1,413.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00
7	Other equity excluding Revaluation Reserves				1,888.76
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for Continuing and discontinued of operations) 1. Basic: 2. Diluted:	0.14	1.91	-0.13	2.25

Notes:

- The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 13, 2021. The Statutory Auditors have carried out the Limited Review for the quarter ended June 30, 2021 pursuant to the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 filed with the stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarterly financial results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and on company's website at www.synergygreenind.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-Sachin R. Shirgaokar **Chairman & Managing Director**











Place: Kolhapur

Dated: 13.08.2021













एम्सन्स इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74899DL1993PLC053060 पंजीकृत ऑफिस : फ्लैट सं. 301, प्लॉट सं. 12, जमरूवपुर कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली—110048 दूरभाष : 91-11-29247721-25, फैक्स : 91-11-29247730 वेबसाइट : www.emmsons.com, ईमेल : corporate@emmsons.com

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

(रु. लाखा म इपाएस क अलावा)							
		₹	समाप्त तिमाही				
Sr. no.	PARTICULARS	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021		
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
1	संचालनों से कुल आय	-	-	-	_		
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	(3,690.51)	(3,672.23)	(3,694.55)	(14,833.45)		
3	अवधि हेतु लाभ/(हानि) कर पूर्व (असाधारण मदों से पश्चात)	(3,690.51)	(3,672.23)	(3,694.55)	(14,833.45)		
4	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों से पश्चात)	(3,690.51)	(3,672.23)	(3,694.55)	(14,833.45)		
5	कुल समेकित आय	(3,689.40)	(3,663.63)	(3,694.78)	(14,825.39)		
6	इक्विटी शेयर पूंजी प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 10/– के)	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60		
	पनर्मूल्यांकन भंडार के पश्चात भंडार 🏾	_	-	-	(183,697.65)		
7	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 10/— के) (अ) मूल (ब) तनुकृत	(30.76) (30.76)		(30.80) (30.80)	(123.65) (123.65)		
	पणियाँ:	>-00-		× -0 -> -0-			

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वार समीक्षा की गई है और 13 अगस्त, 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वरा अनुमोदित किया गया है।

. उपरोक्त 30 जुन. 2021 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीवित वितीय परिणामों करविस्तृत प्रारू का एक उद्धरण है, जो सेवी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियमन र के तहत रहोंक एक्सचेंजों के साथ दायर 30 जुन, 2021 को समाप्त तिमाही के विर स्टैंडअलोन वितीय परिणामों विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। इन वितीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टेंक एक्सेबंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है। मण्डल के आदेश से

प्रति एम्सन्स इंटरनेशनल लिमिटेड अनिल कुमार मोंगा चेयरमैन और प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India lead Office: Central Bank of India Chandermukhi, Mumbai-40002

1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 सार्वजनिक सूचना

श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड के डिबेंचर-धारकों के लिए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा जारी रु. 100/- प्रत्येक के कुल अंकित मूल्य रु. 2,50,00,000 / - (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) पर 15% पंजीकृत मॉर्गेज डिबेंचरों के निर्गम प्रत्याभृत करने के लिए मेसर्स श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के साथ निष्पादित ट्रस्ट विलेख दिनांकित 28 जुलाई, 1988 के अनुसार हम, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हैं। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17 फरवरी, 1997 के अनुसार कंपनी परिसमापन में चली गई और परिसमापक ने इसकी परिसंपत्तियों का कब्जा लिया। गुजरात उच्च न्यायालय के परिसमापक ने कंपनी की परिसंपत्तियों की नीलामी के बाद डिबेंचरों के लिए हमें धनराशि रु. ४,16,80,569.25 / – (रुपये चार करोड़ सोलह लाख अस्सी हजार पाँच सौ उनहत्तर और पच्चीस पैसा मात्र) दिए। हम, ट्रस्ट की उक्त घोषणा के अनुसार राशि रु. 5,70,252/— के कानूनी प्रभारों सहित सभी लागतों, शुल्कों, प्रभारों को समायोजित करने के बाद उपरोक्त डिबेंचरों के धारकों को रु. ४,11,10,317.25 / – की शेष धनराशि वितरित करने के इच्छुक हैं।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त डिबेंचरों के धारक मूल डिबेंचर प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण और विशिष्ट प्रपत्र में वचनपत्र जिनके निमित्त सत्यापन के बाद चेक जारी किए जायेंगे, के साथ सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों में पूर्वा. 11.00 से अप. 5.00 के बीच अधोल्लिखित पते पर हमारे कार्यालय में उपस्थित हों।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भूतल एमएमओ बिल्डिंग फोर्ट, मुंबई-400001

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए हस्ता./-

ई-मेलः dtcbi@centralbank.co.in

प्राधिकृत अधिकारी

गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड सी.आई.एन. : L51109UP1987PLC009090 पंजीकृत कार्यालय- रायपुर (रनिया), कालपी रोड, जिला- कानपुर देहात (उ.प्र.)-209304 ईमेल : secretarial@ganeshaecosphere.com,

वेबसाईट : www.ganeshaecosphere.com फोन नo- 0512-2555505-06, मो नo - +91 9198708383, फैक्स नo - 0512-2555293

32वीं वार्षिक सामान्य सभा, बुक क्लोजर व ई वोटिंग की सूचना

रतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक सामान्य सभा शनिवार, 4 . सितम्बर २०२१ को अपरान्ह १२:15 बजे से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग (VC) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (OAVM) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

कारपोरेट कामकाज मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्रक दि० 13.01.2021, 05.05. 2020, 13.04.2020 व 08.04.2020 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्रक दि० 15.01.2021 व 12.05.2020 के अनुपालन के तहत, कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा की सचना एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जा चुकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.ganeshaecosphere.com पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुरूप आगामी वार्षिक सामान्य सभा में लाभांश की हकदारी, यदि घोषित की गयी तो, पर विचार करने के लिये सदस्यों का रिजस्टर तथा शेयर टांसफर बक्स रविवार, 29 अगस्त 2021 से शनिवार, 4 सितम्बर 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुरूप सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा मतदान की सुविधा, कम्पनी के द्वारा सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जा रही है। कंपनी द्वारा एनएसडीएल (NSDL) को रिमोट ई-वोटिंग व सभा में ई-वोटिंग की सुविधायें प्रदान करने के लिये नियुक्त किया गया है। पुनः सूचित किया जाता है कि :

, . वार्षिक सामान्य सभा की सचना में डीमैट मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग, VC/OAVM के माध्यम से सभा में शामिल होने तथा सभा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने का तरीका प्रदान किया गया है।

सभा की सचना ई वोटिंग की विस्तत कार्यप्रणाली के साथ कंपनी के उन सदस्यों को जिनकी ई-मेल आई डी कपंनी के पास पंजीकृत है दिनांक 13 अगस्त 2021 को भेजी जा चुकी है।

. रिमोर्ट ई वोटिंग शुरु करने की तिथि तथा समयः 1 सितम्बर 2021 (प्रातः 10 बजे)। 4. रिमोट ई वोटिंग की अंतिम तिथि व समयः 3 सितम्बर 2021 (सायंकाल 5 बजे)।

5. कट ऑफ तिथि शनिवार, 28 अगस्त 2021।

3. ऐसे व्यक्ति जो कि नोटिस के भेजे जाने के बाद कम्पनी के सदस्य बनते हैं तथा कटऑफ तिथि यानी शनिवार, 28 अगस्त 2021 को शेयर धारित करते हैं, वे ई-वोटिंग के लिए evoting@nsdl.co.in अथवा secretarial @ganeshaecosphere .com /admin@skylinerta.com पर ई—मेल भेजकर अपना युजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट ई वोटिंग से मतदान की अनुमति शकवार 3 सितम्बर 2021 को सायंकाल 5 बजे के बाद नहीं होगी।

. बैठक में भी ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग से पहले वोट नहीं दिया है वे बैठक में ई वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकार

. ऐसे सदस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है, वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हे पुनः वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

10. वह सदस्य जिनका नाम शनिवार, 28 अगस्त 2021 (कट ऑफ तिथि) को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज होगा वे रिमोट ई वोटिंग अथवा बैठक में ई वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं।

।1.फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी में अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं किया है, वे कंपनी के आरटीए, मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को admin@skylinerta.com पर विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र जिसमें शेयरधारक का नाम, फोलियो नं.. पता और ईमेल आईडी का उल्लेख हो सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड की कॉपी के साथ भेजकर, अपने ईमेल पते को अपडेट कर सकते हैं। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

12. कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा की सूचना NSDL तथा स्टाक एक्सचेंज (बीएसई व एनएसई) की वेबसाइट http://www.evoting.nsdl.com, www.bseindia.com व www.nseindia.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

13.ई—मतदान सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिये सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध 'FAQ' तथा ई—वोटिंग मैनअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं0 1800 1020 990 or 1800 22 44 30 पर एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी शिकायत पर निम्न से सम्पर्क करें :मिस पल्लवी महातरे, मैनेजर-NSDL या मिस सोनी सिंह असिस्टेंट मैनेजर – NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई — 400 013 ईमेल— evoting@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in.

कृते गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड स्थान- कानपुर (भरत कुमार सजनानी) दिनांक: 13.08.2021 कंपनी सचिव

SANDHAR

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L74999DL1987PLC029553 Regd. Office: B-6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 Ph. No.: +91-124-4518900; Fax No.: +91-124-4518912 Website: www.sandhargroup.com; E-mail: investors@sandhar.ir

29th AGM OF SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of Sandhar Technologies Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday, the 23" September, 2021 at 10:00 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated the 08th April 2020, 17/2020 dated the 13th April, 2020, 20/2020 dated the 5th May 2020 and 02/2021 dated the 13th January, 2021 issued by Ministry o Corporate Affairs and SEBI Circulars dated the 12th May, 2020 and 15th January, 2021 to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice.

In Compliance with the above MCA Circulars, electronic Copies o Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financia Year 2020-2021 will be sent to all the shareholders, whose email addresses are registered / available with the Company/ Depository Participants. Shareholders are requested to register their ema addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.

The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website: www.sandhargroup.com and also or the websites of the Stock Exchanges (BSE & NSE).

Shareholder will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM through remote e voting / e-voting during AGM. If the shareholder's email address is already registered with the Company / Depositories, log in details fo e-voting would be sent on Shareholder's registered email address In case Shareholders have not registered their email address with the Company / Depositories, the detailed procedure of voting by shareholders who have not registered their email address will be provided in the AGM Notice which will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visi www.sandhargroup.com for such details.

The Board has recommended a final dividend of Rs.1/- per equity share of Rs.10/- each fully paid up. The Board has also confirmed the interim dividend of Rs. 1.25 per equity share of Rs. 10/- each fully

paid up, already paid for the year ended the 31st March, 2021. The Notice of 29th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered ema

खबरें जो बढाए

SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) परिशिष्ट—IV (नियम 8(1))

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के

नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में

इंडियन ओवरसीज बैंक के अधोहरताक्षरी मौजूदा प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त

सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक अनुबंध दूरों व शेषों, शुल्कों, आकरिमक व्ययों, लागतों, शुल्कों आदि पर भावी ब्याज

सहित 31.05.2021 तक सूचना में वर्णित **रु. 102,53,991.09 (रुपए एक करोड़ दो**

लाख तिरपन हजार नौ सौ इक्यानवे व पैसे नौ केवल) की समग्र राशि का

भुगतान करने के लिए **ऋणी मैसर्स आर्यन हाइर स्डटी कंसलटेंट्स प्रा. लि., पता** जे—13 ∕ 33, (पहली मंजिल) पटेल मार्किट, राजौरी गार्डन नई दिल्ली—110027

इसके निदेशक के माध्यम से श्री मनीष पाहवा (गिरवीकर्ता भी) पुत्र श्री जितेंद्र पाहवा पता जे 5/52 जी, दूसरी मंजिल, राजौरी गार्डन, दिल्ली, पिनः 110027

(गारंटर व गिरवीकर्ता), अन्य निदेशक श्रीमती अरूणा पहावा पत्नी श्री मनीष

पाहवा, पता : जे 5/52, दूसरी मंजिल राजौरी गार्डन, दिल्ली, पिन : 110027

और सर्वसाधारण को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी मौजूदा

प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम

की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित

विशेष रूप से ऋणी / गारंटर और सर्वसाधारण को एतदद्वारा संपत्ति के साथ

लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई

भी लेन-देन मांग सचना के जारी होने के बाद किए गए भुगतान, यदि कोई है को

छोडकर भुगतान की तिथि तक अनुबंध दरों व शेषों, शुल्कों, आकस्मिक व्ययों,

लागतों, शुल्कों आदि पर भावी ब्याज सहित 31.05.2021 तक सूचना में वर्णित रु.

102,53,991.09 (रुपए एक करोड़ दो लाख तिरपन हजार नौ सौ इक्यानवे व पैसे

नौ केवल) की राशि के लिए इंडियन ओवरसीज के प्रभार का विषय होगा। कब्जा

लेने की तिथि तक देययोग्य ऋण भुगतान की तिथि तक अनुबंध दरों व शेषों, शल्कों आदि पर उसपर भावी ब्याज सिहत 31.05.2021 तक 😿 102,53,991.09

(रुपए एक करोड़ दो लाख तिरपन हजार नौ सौ इक्यानवे व पैसे नौ केवल) है।

में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

ऋणी का ध्यान प्रतिभृतित संपृत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति बियरिंग नं. डी—112. बेसमेंट एरिया. पंचशील एन्क्लेव. मरिजद मठ. नई दिल्ली-

110017, फेज— । ।, माप 2200 वर्ग फुट **श्री मनीष पाहवा** के नाम पर **सीमाएं: उत्तर:** प्लॉट

प्राधिकृत अधिकारी,

इंडियन ओवरसीज बैंक

नं. डी–111, दक्षिण: प्लॉट नं. डी–113, पूर्व: मेन रोड, पश्चिम: सर्विस लेन

दिनांकः 12.08.2021

स्थानः नई दिल्ली

(गारंटर) को बुलाने के लिए 07.06.2021 को मांग सूचना जारी की थी।

संपत्ति पर **12 अगस्त, 2021** को कब्जा ले लिया है।

ऋणी / गारंटर राशि का भगतान करने में असफल रहे. एतदद्वारा ऋणी.

इंडियन ओवरसीज बैंक

(जनकपुरी शाखा) , जनकपुरी, नई दिल्ली

बी—ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली—110058 Phone: 011-25594284, E-mail: iob0544@iob.in

आपकी तरक्की की रफ़्तार

For Sandhar Technologies Limited

Date: 14th August, 2021 Place: Gurugram

addresses shortly.

Sd/-Komal Malik Company Secretary 8 Compliance Office



शिवम ऑटोटेक लिमिटेड

सीआईएनः L34300HR2005PLC081531

पंजीकृत कार्यालयः 10, पहली मंजिल, टॉवर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर-61, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा – 122102; टेलीफोनः 0124-4698700; फैक्सः 0124-4698798 ई-मेलः info@shivamautotech.com; वेबसाइटः www.shivamautotech.com

And to ansit from the many of a

	30 जून 2021 की समाप्त तिमाही हेतु अनअकेक्षित वित्तीय परिणामी का उद्धरण				
		30 जून 2021	31 मार्च 2021	30 जून 2020	31 मार्च 2021
क. सं.	विवरण	को समाप्त तिमाही	को समाप्त तिमाही	को समाप्त तिमाही	को समाप्त वर्ष
		(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	11,422.50	16,309.59	3,821.63	49,092.82
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / हानि) (कर, विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के पूर्व)	(1,309.51)	611.16	(3,341.98)	(2,452.60)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / हानि) (विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(1,309.51)	611.16	(3,341.98)	(2,452.60)
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / हानि) (विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(1,309.51)	(508.99)	(3,079.27)	(2,252.56)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	(1,294.92)	(443.84)	(3,088.65)	(2,214.59)
6.	समता अंश पूँजी	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7.	अन्य इक्विटी				9,302.14
8.	प्रति शेयर आय (रु 2/– प्रत्येक) जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु				
	– मूल	(1.31)	(0.51)	(3.08)	(2.25)
	– तरल	(1.31)	(0.51)	(3.08)	(2.25)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों के पास दाखिल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों का उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com पर उपलब्ध है।

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड हेतु एवं मंडल के आदेशानुसार्

हस्ता

नीरज मुंजाल **प्र**वध निदेश्र**क**

वेबसाइट : www.shivamautotech.com

HARYANA)

मिश्रधातु निगम लिमिटेड

(सीआईएन: L14292TG1973GO10016 (Monagen 11,14292119133350101660) पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः पीओ कंचनबाग, हैदराबाद—500058 फोनः 040—24184515, फैक्सः 040—29568502, वेबसाइटः www.mid

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का सार क. एकल परिणाम ₹ लाखों तिमाही समाप्त क्र. सं. वर्ष समाप्त विवरण 30.06.2020 31.03.2021 प्रचालनों से कुल राजस्व 11,405.21 34,587.65 11,349.62 2,506.14 10,152.56 (42.45)

31.03.2021 81,323.08 1. अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट मदों और/या असाधारण मदों से पूर्व)# 2. 22,609.39 कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ 22,609.39 2,506.14 10,152.56 (42.45)(विशिष्ट मदों और/या असाधारण मदों के बाद) कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों और / या असाधारण मदों के बाद)# 1,881.14 7.462.38 16,629,15 4. (91.87)अन्य समग्र आय / (हानि) (68.34)121.10 (126.27) (34.09)(कर का शुद्ध) अविध के लिए कुल समग्र आय (4+5) [अविध के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अविध के लिए अन्य समग्र आय 6. 1,812.80 16,595.06 7,583,48 (218.14)(कर पश्चात) शामिल] प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 18,734.00 18,734.00 18,734.00 18,734.00 7. (अंकित मूल्य र 10 / - प्रत्येक) अन्य इक्विटी पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर 88,529.11 8. प्रति शेयर अर्जन (मूल और तरल) (र) 8.88 1.00 3.98 (0.05)(वार्षिकीकृत नहीं)

પ્લ.	समाकत पारणाम	1000	₹ लाखा		
豖.			तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त
सं.	विवरण	30.06.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	30.06.2020 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल राजस्व	11,405.21	34,587.65	11,349.62	81,323.08
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट मदों और/या असाधारण मदों से पूर्व)"	2,506.14	10,152.56	(42.45)	22,609.39
3.	संयुक्त उद्यम के लाभ 🖊 (हानि) का शेयर	(11.77)	8.86	(2.40)	13.13
4.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों और / या असाधारण मदों के बाद)"	2,494.37	10,161.42	(44.85)	22,622.52
5.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों और / या असाधारण मदों के बाद)#	1,869.37	7,471.24	(94.27)	16,642.28
6.	अन्य समग्र आय∕(हानि) (कर का शुद्ध)	(68.34)	121.10	(126.27)	(34.09)
7.	अविध के लिए कुल समग्र आय (5+6) [अविध के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अविध के लिए अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	1,801.03	7,592.34	(220.54)	16,608.19
8.	प्रवत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य • 10 / — प्रत्येक)	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00
9.	अन्य इक्विटी पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर	-			88,379.49
10.	प्रति शेयर अर्जन (मूल और तरल) (र) (वार्षिकीकृत नहीं)	1.00	3.99	(0.05)	8.88

दिनांक: 12.08.2021

1. ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का एक सार है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत पर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.midhani-india.in) पर उपलब्ध है।

2. कंपनी के प्रचालन कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से प्रमावित हुए थे और 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अंतिम भाग में सुधार देखा गया। आज व्यवसाय/आर्थिक स्थितियों के आकलन के आधार पर कंपनी परिसंपत्तियों की कैरिंग वैल्य अच्छी होने के प्रति आशान्वित है और वैश्विक महामारी संबंधी अनिश्चितता का मल्यांकन और अपने आकलन को अद्यतन करती रहेगी।

3. 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में उत्कर्ष एलूमीनियम धातु निगम लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) के परिणाम शामिल हैं जो इविवटी विधि (50% शेयरधारिता) के तहत समेकित किए गए हैं।

4. #विशिष्ट और / या असाधारण मद इंड-एएस के अनुपालन में लाभ और हानि के विवरण में समायोजित किए गए।

5. वित्तीय परिणामों का उपर्युक्त विवरण निदेशक मंडल द्वारा 12 अगस्त, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए।

डॉ. एस. के. झा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता. /-

d2h

(Rs. In Lacs)

DISH TV INDIA LIMITED

Regd. Office: 18th Floor, A Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra CIN: L51909MH1988PLC287553, Tel.: 0120- 5047005/5047000, Fax: 0120-4357078 E-mail: investor@dishd2h.com. Website: www.dishd2h.com

Extract of statement of standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30 June 2021

Consolidated **Particulars** Standalone Quarter ended Year ended Quarter ended Year ended 30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021 30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021 36,321 36,005 41.005 160,396 73.097 75,175 83,558 324,936 1. Total income from operations (19,928) 2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 7.496 3.727 6.810 27.345 6.653 10.265 8.231 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 7,496 (61,645) 6,810 (38,027) 6,653 (97,909) 10,265 (69,750) 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 5,615 [87.648] 5,516 [67,775] 4,914 (141,523) 7,454 (118,986) (117,032) 5. Total comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 5,615 (87,575) 5,516 [67,702] 5.134 [140,037] 7,172 18,413 18.413 18,413 18,413 18,413 18.413 6. Equity Share Capital 18.413 18.413 7. Other Equity 308,208 250,283 8. Basic and diluted earnings per share (for continuing and discontinued operations) of Re. 1 each (not annualised) (In Rs.) 0.29 (4.56)0.29 (3.52) 0.26 [7.32] 0.39 (6.12)

The above information is an extract of the detailed format of financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.dishd2h.com

> For and on behalf of the Board of Directors DISH TV INDIA LIMITED

> > Jawahar Lal Goel Chairman and Managing Director DIN: 00076462

Place: Noida Date: 12 August 2021 Corporate office: FC-19, Sector-16A, Noida-201 301 (U.P)

